

# श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली शिक्षण अधिगम केन्द्र

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण योजना

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

एक साप्ताहिक ऑनलाइन राष्ट्रीय

संकाय विकास कार्यक्रम (एफ.डी.पी.)

## शोध आधारित कौशल संवर्द्धन

दिनांक 09 से 13 मई, 2022

### परिचय

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के शिक्षण अधिगम केन्द्र की स्थापना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण योजना (PMMMNMTT) के पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र हेतु उत्कृष्टता केन्द्र के घटक के अन्तर्गत हुई है। यह योजना शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य भाषा शिक्षा विशेषकर संस्कृत से जुड़े अध्यापक एवं अध्यापक शिक्षकों में शिक्षण एवं अधिगम प्रणालियों के अभिकल्पन, विकास, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु कौशल एवं कुशलताओं का विकास करना है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा केंद्र को उच्च शिक्षा के नवनिर्भर अध्यापकों हेतु एक मासिक अनिवार्य संकाय अनुबोधन कार्यक्रम (FIP) के संचालन हेतु जारी 30 नये केन्द्रों की सूची में चिह्नित किया गया तथा उसे संस्कृत विषय में SWAYAM मंच के माध्यम से Annual Refresher Program in Teaching (ARPIT – 2018, 2019 व 2020 कोर्स) के निर्माण हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (NRC) के रूप में भी अधिसूचित किया गया। इसके साथ केन्द्र द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण हेतु दो संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया गया है। अभी तक केन्द्र द्वारा 48 कार्यक्रम एवं 3 संकाय अनुबोधन कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा चुका है।

### सन्दर्भ

हम सभी जानते हैं कि शोध एक सृजनात्मक एवं व्यवस्थित कार्य है जो वर्तमान ज्ञान को नवीन ज्ञान से बढ़ाने और वैज्ञानिक विधि के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान प्रतिपादित करने के लिये किया जाता है। यह ज्ञान सृजन करने, मानव विकास को बढ़ाने और उसके अपने पर्यावरण की विसंगतियों को भली प्रकार परखने, उसके अंतर्द्वंदों को समझने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। शोध प्रक्रिया में समस्या को पहचानना, सम्बन्धित साहित्य का पुनरीक्षण, शोध प्रश्न एवं उद्देश्य बनाना, परिकल्पना निरूपण एवं परीक्षण, उपयुक्त प्रतिदर्श चयन विधि द्वारा प्रतिदर्श चयन, प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण, निष्कर्ष-निरूपण और प्रतिवेदन लेखन अनेक क्रियायें शामिल होती हैं। इन शोध क्रियाओं को प्रभावी एवं अर्थपूर्ण तरीके से नियोजित तथा संचालित करने के लिये कौशल एवं कुशलताओं की जरूरत होती है। इसके साथ इन क्रियाओं को द्रुत एवं शुद्धतापूर्वक करने के लिये डिजिटल उपकरण एवं सॉफ्टवेयर प्रयोग सम्बन्धित कौशल भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक साप्ताहिक राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम (एफ.डी.पी.) का आयोजन समस्या स्थापन से परिणाम निरूपण एवं प्रतिवेदन लेखन आधारित कौशल एवं कुशलताओं को संवर्द्धित करने के आशय से किया जा रहा है।

### उद्देश्य

इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं –

- विभिन्न शोध क्रियाओं यथा समस्या को पहचानना, शोध प्रश्न एवं उद्देश्य बनाना आदि से सम्बन्धित कौशलों को संवर्द्धित करना।
- प्रदत्तों के संकलन, प्रबंधन एवं विश्लेषण की कुशलताओं का निर्माण करना।
- विविध शोध क्रियाओं को करने हेतु डिजिटल उपकरण एवं सॉफ्टवेयर की प्रयोग क्षमताओं को अभिवृद्ध करना।

## लक्ष्य समूह

- सभी विषयों के उच्च शिक्षा के शिक्षक।
- परम्परागत एवं आधुनिक दोनों विश्वविद्यालयों के अध्यापक शिक्षक।
- केवल संस्कृत विषय के TGT तथा PGT शिक्षक।
- सभी विषयों के अनुसंधानकर्ता।

## पंजीकरण

इस कार्यशाला के लिये पंजीकरण शुल्क ₹600/- (अप्रतिदेय) है।  
इच्छुक प्रतिभागी इस लिंक

<https://forms.eduqfix.com/slbsnsuform/home>

द्वारा 08 मई, 2022 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

### ⚠ महत्वपूर्ण सूचना

- ✓ प्रतिभाग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।
- ✓ पंजीकरण प्रपत्र में कृपया अपना वैध ईमेल एवं WhatsApp नंबर प्रदान करें क्योंकि कार्यशाला सम्बन्धित सभी सम्प्रेषण इन्हीं के द्वारा किये जाएंगे।
- ✓ इस कार्यशाला में प्रतिभाग/ पूर्णता (निष्पादन आधारित ग्रेड) का ई-प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
- ✓ यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार इस एफ.डी.पी. का ई-सर्टिफिकेट करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएस) के लिए मान्य होगा। (पद संख्या. 18.0 (ix)).

ऑनलाइन प्लेटफार्म:   
गूगल मीट

📧 सक्रिय प्रतिभाग हेतु अपेक्षित सामग्री : -

1. लैपटॉप/ कैमरा एवं माइक्रोफोन के साथ कंप्यूटर/स्मार्टफोन।
2. कार्यशाला के समय उत्तम इन्टरनेट कनेक्टिविटी कम से कम 3 जीबी डाटा प्रतिदिन।

कार्यक्रम समय

10.30-01.00 PM  
03.00-04.30 PM

### संरक्षक

प्रो. मुरलीमनोहर पाठक  
कुलपति

### समन्वयक एवं संयोजक

प्रो. अमिता पाण्डेय भारद्वाज  
निदेशक

### सह-संयोजक

डॉ. तमन्ना कौशल  
डॉ. आरती शर्मा

### कार्यक्रम सुगमकर्ता

श्री सुरेन्द्र नागर  
श्री ज्ञान चन्द शर्मा  
श्री राकेश काण्डपाल  
श्री अक्षत डबराल  
श्री सचिन कुमार

आयोजक:

## शिक्षण अधिगम केन्द्र

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण योजना, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रदत्त  
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

अन्य जानकारी हेतु-

सम्पर्क सूत्र -8287380767, 9716692396, 8285513959

ई-मेल: [tlc@slbsrsv.ac.in](mailto:tlc@slbsrsv.ac.in)

वेबसाइट: [www.slbsrsv.ac.in](http://www.slbsrsv.ac.in)